

(2)

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक -	प्रारूप 4 कंको 0388 के अनुसार 54,00,000/-
	रूपया प्रति हेक्टेयर पेज नं0 102
स्टाम्प का कुल योग	- 14,000 /-
दस्तावेज का प्रकार	- बैनामा
विक्रय मूल्य	- 2,00,000 /-
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित	} - 1,89,000 /-
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	
मौजा	- भोजला
ब्लॉक	- बड़ागाँव
मापन की इकाई	- हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	- 0.035 हे0
सड़क की स्थिति	- किसी भी सर्वरुतु मार्ग पर स्थित नहीं है।
पेड़ों का मूल्यांकन	- कोई पेड़ नहीं है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	- कोई कुआ नहीं है।
प्रथम पक्ष की संख्या	- एक
द्वितीय पक्ष की संख्या	- एक (निष्पादक तीन)
नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष -	राज इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा0 लि0 (PAN-AAFCR-9805-A) 808 ग्वालियर रोड झांसी जरिये प्रतिनिधि श्री मनकेश पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी- 341, मार्केट मोहल्ला, सदर बाजार, तहसील व जिला झांसी (जिसकी पहचान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र सं0 DCT3041720 से की गई है मो0नं0 9415507005) (पेशा- व्यापार)

Manoj Agarwal



Manoj



Manoj



Manoj



आवेदन सं०: 202300860022082

विक्रय पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7519

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 200000 स्टाम्प शुल्क- 14000 बाजारी मूल्य - 189000 पंजीकरण शुल्क - 2000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 2060

श्री पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी द्वारा
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 91/1, सिविल लाइन, झांसी



श्री, पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी द्वारा

पवन कुमार साहू अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/08/2023 एवं
02:01:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र . .
उप निबंधक :सदर प्रथम
झांसी
11/08/2023

अरूण कुमार यादव
निबंधक लिपिक
11/08/2023

प्रिंट करें



(3)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष - पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी पता जीएस-01, विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी रोड, झांसी (PAN-ABDFP-1997-K) द्वारा डायरेक्टर्स

1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी- 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3212 से की गई है मो०नं० 9452230749) (पेशा- व्यापार)
2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी- 452/2ए, सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 4694 से की गई है मो०नं० 9415057799) (पेशा- व्यापार)
3. श्री शशि कान्त द्विवेदी पुत्र स्व० श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी- 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 0376 से की गई है मो०नं० 9935186919) (पेशा- व्यापार)

Chander Agarwal



Amn



Shashi



Sh



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7519

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राज इन्फ्रा प्रोपर्टीज प्रा०लि० के द्वारा मनकेश, पुत्र श्री ओम प्रकाश

निवासी: 341, मार्केट मोहल्ला, सदर बाजार, झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

Umran Agarwal




श्री पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी के द्वारा पवन कुमार साहू, पुत्र श्री संतोष कुमार साहू

निवासी: 91/1, सिविल लाइन, झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2

Pavan Kumar Sahu



श्री पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी के द्वारा अमन मदान, पुत्र श्री अवतार सिंह

निवासी: 452/2ए, सी०पी० मिशन कम्पाउण्ड, झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 3

Aman Madan



श्री पिताम्बरा हाऊसिंग एलएलपी के द्वारा शशि कान्त दिव्वेदी, पुत्र श्री स्व० विशम्भर प्रसाद दिव्वेदी


निवासी: 1054/2, खातीबाबा मंदिर, ईसईटोला, झांसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

Shashi Kant Divvedi




श्री मुकेश चंद्र सरसैया, पुत्र श्री रमेश चंद्र सरसैया

निवासी: 373/बी, अम्बेडकर नगर, तालपुरा, झांसी

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

Mukesh Chandra Sarasaiya



श्री अनिल गौतम, पुत्र श्री राम चरन

निवासी: आर०बी० दिव्तीय, 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, झांसी

व्यवसाय: अन्य

Anil











(4)

सम्पत्ति का विवरण :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा भोजला ब्लॉक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी विक्रित आराजी किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा सड़क/आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो बंजर है विक्रित आराजी में कोई पेड़, कुआं आदि नहीं है। वयशुदा आराजी का नया लगान 1 रूपया 72 पैसा सालाना है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 07-11-2017ई0 श्रीमती विनीता पत्नी ~~स्व०~~ श्री बलवीर आदि से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में वही संख्या I जिल्द 7207 के पृष्ठ 217/260 पर क्रम संख्या 5534 दिनांक 07-11-2017ई0 दर्ज है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008- दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार कम्पनी द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 2,00,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

<u>खाता सं०</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
00386	409	0.032 हे०

कुल 1 किता रकवा 0.032 हे० का 1/28 भाग यानि रकवा 0.001 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुभाष चन्द्र ..

उप निबंधक : सदर प्रथम

झांसी

11/08/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

अरूण कुमार यादव

निबंधक लिपिक झांसी

11/08/2023

प्रिंट करें



(5)

<u>खाता सं०</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
00046	408	0.299 हे०

कुल 1 किता रकवा 0.299 हे० का 1/56 भाग यानि रकवा 0.005 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है।

<u>खाता सं०</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
0359	398	1.651 हे०

कुल 1 किता रकवा 1.651 हे० का 1/56 भाग यानि रकवा 0.029 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है।

इस प्रकार तीनों खातों मे कुल रकवा 0.035 हे० यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। विक्रित आराजियात की सम्पूर्ण चौहद्दी पूर्व- आराजी नं० 377, 397, 395 व 405, पश्चिम- जमीन दीगर, उत्तर- आराजी नं० 376, दक्षिण- आराजी नं० 400 है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं हैं।

विक्रय मूल्य - 2,00,000/- दो लाख रूपया जरिये चैक नं० 000048 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांक 08.08.2023 पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा } 1,89,000/- एक लाख नवासी
निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } - हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।

Manen Agarwal



Manen



Manen











Manen



(6)

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है। अतः मैं विक्रेता उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स मिलकीयत की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे-पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें। मुकरर यह है कि दिनांक 10-08-2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजूलेशन पास करके श्री मनकेश को रजिस्ट्री कराने हेतु अधिकृत किया गया है। मुकरर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 14,000/- रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP84791322750827V स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

(7)

गवाह (1) - श्री मुकेश चंद्र सरसैया पुत्र श्री रमेश चंद्र सरसैया निवासी- 373/बी, अम्बेडकर नगर तालपुरा, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 6957 से की गई है। मो०नं० 8840683835 (पेशा- प्राईवेट कार्य)

गवाह (2) - श्री अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी- आर०बी० द्वितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 7849 से की गई है। मो०नं० 7007198185 (पेशा- प्राईवेट नौकरी)

दिनांक : 10-08-2023ई०

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झांसी

अनुज्ञप्ति सं० 1/2010-11 मो०नं० 9415401278

टाईपकर्ता - दीपक सिंह

राजेश कुमार सिंह
दस्तावेज लेखक तह०-झांसी
अनुज्ञप्ति संख्या 1 वर्ष 2010/20,
लिया गया शुल्क-
मैथिली वर्ष 20१३ से 20१४

Manish Agarwal



Anil



Manish Agarwal



Anil



गवाह (1)

Manish



गवाह (2)

Anil



श्री मुकेश चंद्र सरसैया
पुत्र श्री रमेश चंद्र सरसैया
निवासी - 373/बी अम्बेडकर
नगर तालपुरा, तहसील व
जिला झांसी

अनिल गौतम
पुत्र - रामचरन
आर०बी० द्वितीय 508 बी रानी
लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी
(झांसी)


एक किता
स्थित
नाम विक्रेता
नाम क्रेता
चौहादी
पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

विक्रेता

क्रेता

एक किता
स्थित
नाम विक्रेता
नाम क्रेता
चौहादी
पूर्व
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण

Umesh Agarwal



विक्रेता



क्रेता



सम्राट स्टूडियो
119, अलीगोल बाँस
941558883

आवेदन सं०: 202300860022082

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10372 के पृष्ठ 309 से 326 तक क्रमांक
7519 पर दिनांक 11/08/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

~~रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर~~

सुभाष चन्द्र . .

उप निबंधक : सदर प्रथम

झांसी

11/08/2023

